

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 755]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2022 — पौष 10, शक 1944

महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-5/2022/2652/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार 05 वर्षों के लिए स्थायी पंजीयन करता है:—

क्र.	संस्था का नाम	डाक का पूरा पता	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	स्वीकृत क्षमता		पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
1	जे.एस.पी.एल फाउन्डेशन, तमनार, रायगढ़	जे.एस.पी.एल फाउन्डेशन (जिन्दल चिल्ड्रन होम बालिका) सावित्री नगर, तमनार, जिला, रायगढ़ (छ.ग.)	रायगढ़	बालगृह (बालिका)	—	50	07 / RIG/22-23
2	जे.एस.पी.एल फाउन्डेशन, तमनार, रायगढ़	जे.एस.पी.एल फाउन्डेशन (जिन्दल चिल्ड्रन होम बालक) सावित्री नगर, तमनार, जिला, रायगढ़ (छ.ग.)	रायगढ़	बालगृह (बालक)	50	—	08 / RIG/22-23

शर्तें:—

- यह पंजीयन, अधिसूचना जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए वैध होगा।
- संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित नियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।
4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पोषण चंद्राकर**, विशेष सचिव.